

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 25 अगस्त 2022

प्रश्न -1

अपर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं होने के कारण हाल ही में RBI ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है?

- A) सारस्वत को-ऑपरेटिव
- B) लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव
- C) डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक
- D) अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक

सही उत्तर: C

भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि डेक्कन अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, कर्नाटक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है क्योंकि ऋणदाता के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।

प्रश्न -2

'#PlayForOurHeroes' अभियान हाल ही में निम्नलिखित में से किस जीवन बीमा कंपनी द्वारा शुरू किया गया था?

- A) बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस
- B) बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस
- C) एगॉन लाइफ इंश्योरेंस
- D) एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस

सही उत्तर: C

भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, डिजिटल इंडिया की जीवन बीमा कंपनी एगॉन लाइफ इंश्योरेंस ने '#PlayForOurHeroes' अभियान लॉन्च किया है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 25 अगस्त 2022

प्रश्न -3

'मैडम सर: द स्टोरी ऑफ बिहारस फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर' नामक एक नई किताब _____ की आत्मकथा है।

- A) अपराजिता राय
- B) मंजरी जरुहर
- C) मेरिन जोसेफ
- D) विमल मेहरा

सही उत्तर: B

मंजरी जरुहर, भारत में पहली पांच महिला पुलिस अधिकारियों में से एक और बिहार राज्य से पहली, 1976 में IPS के लिए चुनी गई थीं और उन्होंने बिहार और झारखंड की राज्य सरकारों में पदों पर कार्य किया है।

प्रश्न -4

विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया गया?

- A) 16 अगस्त
- B) 17 अगस्त
- C) 18 अगस्त
- D) 19 अगस्त

सही उत्तर: D

विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को उन समर्पित सहायता कर्मियों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है जो दुनिया भर में आपदाओं से प्रभावित लाखों लोगों की देखभाल करने में मदद करते हैं।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 25 अगस्त 2022

प्रश्न -5

उधार जोखिम का निर्धारण करने और हाइपर-पर्सनलाइज्ड ग्राहक अनुभव प्रदान करने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने फाइव स्टार बैंक के साथ भागीदारी की है?

- A) विप्रो
- B) TCS
- C) महिंद्रा एंड महिंद्रा
- D) इंफोसिस

सही उत्तर: B

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने फाइव स्टार बैंक के साथ भागीदारी की है ताकि उसे उधार जोखिम का निर्धारण करने और हाइपर-पर्सनलाइज्ड ग्राहक अनुभव प्रदान करने में मदद मिल सके।

प्रश्न -6

विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया?

- A) 20 अगस्त
- B) 21 अगस्त
- C) 22 अगस्त
- D) 19 अगस्त

सही उत्तर: D

विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन चित्रों को क्लिक करने की कला, इसके पीछे की तकनीक और इसके इतिहास का जश्न मनाता है।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 25 अगस्त 2022

प्रश्न -7

जुलाई 2022 में घरेलू बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से कौन सी एयरलाइन दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बनकर उभरी?

- A) विस्तारा
- B) इंडिगो
- C) फर्स्ट गो
- D) एयर इंडिया

सही उत्तर: A

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई में विस्तारा 10.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ घरेलू बाजार में दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन के रूप में उभरी, जो 58.8 प्रतिशत के साथ बाजार की अग्रणी कंपनी इंडिगो के बाद दूसरे स्थान पर रही।

प्रश्न -8

अपनी हवाई ई-टिकट सेवा के तहत बुकिंग डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस सशस्त्र बल ने IRCTC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

- A) SSB
- B) ITBP
- C) CISF
- D) BSF

सही उत्तर: D

सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने अपनी हवाई ई-टिकट सेवा के तहत बुकिंग डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (IRCTC) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

डेली करेंट अफेयर्स क्विज - 25 अगस्त 2022

प्रश्न -9

_____ राज्य भारत में पहला 'हर घर जल' प्रमाणित राज्य बन गया है।

- A) गोवा
- B) राजस्थान
- C) उत्तर प्रदेश
- D) उत्तराखंड

सही उत्तर: A

गोवा भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है; यानी राज्य के हर घर में पाइप से पानी का कनेक्शन है।

प्रश्न -10

_____ देश सभी के लिए पीरियड प्रोडक्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया।

- A) आयरलैंड
- B) नीदरलैंड
- C) स्कॉटलैंड
- D) स्विट्ज़रलैंड

सही उत्तर: C

स्कॉटलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने फ्री पीरियड उत्पादों की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की है।